

पूर्व में हो चुके विवाह के पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज

आवेदन जमा करने का समय प्रातः 10.30 से दोपहर 1.30

- विवाह हेतु आवेदन पत्र धारा 9 का (6 प्रतियों में) जिस पर संयुक्त फोटो पासपोर्ट साईज तथा 10/- के आवेदन शुल्क की टिकिट को चस्पा करें।
- चालान रूपये 15Rs. का जो खजाने में "0075 विविध आय, विवाह का पंजीयन " (स्टेट बैंक आफ इंडिया में 10.30 से 1.00 बजे तक जमा होते हए।

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी आवश्यक हए

- आयु संबंधी प्रमाण जस्से हाई स्कूल परीक्षा की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र या मेडिकल प्रमाण पत्र में से कोई एक
- निवास संबंधी प्रमाण पत्र, दोनों आवेदकों का (आवेदन प्रस्तुति के एक माह पूर्व से इंदौर जिले में निवास होना आवश्यक हए।)
- विवाह प्रमाण पत्र, विवाह पत्रिका , विवाह का फोटो 4 बाय 6 इंच का तथा अन्य दस्तावेज । यदि पूर्व में विवाहित हए तथा तलाक हो चुका हए तो डिक्री की प्रति, विदूर/विधवा होने पर पूर्व साथी का मृत्यु प्रमाण संलग्न करें ।
- 2 संयुक्त फोटो पासपोर्ट साईज के विवाह पंजीयन के समय
- शपथ पत्र, आवेदकगणों का पृथक पृथक
- रूपये 100/-स्टाम्प इयूटी (रू 100 का कोरा स्टाम्प पेपर क्रास किया हुआ, दोनों आवेदकों के हस्ताक्षर सहित)
- आवेदन प्रस्तुति के बाद एक माह का प्रकाशन होता हए तत्पश्चात पुलिस/एसडीओ से प्रतिवेदन तथा अन्य जिले के स्थाई निवासी होने पर उस जिले के विवाह अधिकारी तथा पुलिस अधिकारी के अनापत्ति का

प्रतिवेदन प्राप्त होने की स्थिति में पंजीयन किया जा सकेगा । रिपोर्ट अप्राप्त होने की स्थिति में पंजीयन नहीं होगा ।

- विवाह का पंजीयन, विज्ञप्ति के प्रकाशन के एक माह बाद तथा आवेदन प्रस्तुति के अधिकतम 3 माह में ही होगा । इसके अंदर उपस्थित न होने या रिपोर्ट न आने पर आवेदन स्वयं निरस्त हो जावेगा ।
- आवेदन प्रस्तुति हेतु आवेदकगण तथा पंजीयन हेतु आवेदकगण के साथ तीन साक्षी के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है।